

प्रेस नोट

दिनांक 18.04.2021

सराहनीय कार्य थाना पीपरपुरजनपद अमेठी

45 शीशी अवैध देशी शराब व 12 कैन वीयर के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अभियान के क्रम में अवैध अपमिश्रित शराब के बिक्री के विरुद्ध अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.04.2021 को प्र०नि० रतन सिंह थाना पीपरपुर के निकट पर्यवेक्षण में उ०नि० यमुना प्रसाद पाण्डेय मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान दुर्गापुर तिराहे से एक बोलेरो वाहन सं० यूपी 44 एवी 9083 पर सवार 02 अभियुक्त 1. मिन्टू यादव पुत्र स्व० रामकरन यादव ग्राम मरुई थाना पीपरपुर जनपद अमेठी, 2. रमेश कुमार यादव पुत्र रामआसरे ग्राम मठिया मौजा भरकरी थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर को समय करीब 21:30 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । मौके का फायदा उठाकर 02 अभियुक्त भाग गये । बोलेरो वाहन की तलाशी से 45 शीशी अवैध देशी शराब व 12 कैन अवैध वीयर बरामद हुआ । थाना पीपरपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मिन्टू यादव पुत्र स्व० रामकरन यादव ग्राम मरुई थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. रमेश कुमार यादव पुत्र रामआसरे ग्राम मठिया मौजा भरकरी थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर ।

फरार अभियुक्तों के नाम:-

1. पवन सरोज पुत्र राजाराम सरोज ग्राम करनपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर ।
2. संजय यादव पुत्र रामदुलार यादव निवाली मठिया मौजा भरकरी थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी-

- 45 शीशी अवैध देशी शराब व 12 कैन वीयर ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु०अ०सं० 56/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

पुलिस टीम-

1. उ०नि० यमुना प्रसाद पाण्डेय थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. हे०का० अखिलेश सिंह थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
3. का० मुकेश मौर्या थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।